



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 8—अक्टूबर 14, 2005 (आश्विन 16, 1927)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 8—OCTOBER 14, 2005 (ASVINA 16, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 2005

सं. सम्मेलन-5(20) 2001/गोवा/15661--कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैरा 4 के उप-पैरा (1) के उपबंधों के अनुसार, जिसे अब से स्कीम के रूप में जाना जायेगा, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि गोवा राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं:--

क्र.सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	जिस पर नियुक्ति की गयी है
1	2	3
1.	डॉ. सुरेश आमोनकर माननीय श्रम मंत्री, गोवा सरकार, पणजी, गोवा	अध्यक्ष [पैरा 4(1)(क) के अधीन]
2.	एडवोकेट एलगार नोरोन्हा, पैडनावातु टॉवर्स, 18, जून रोड, पणजी-गोवा	सरकारी सदस्य [पैरा 4(1)(ख) के अधीन]
3.	एडवोकेट राजेन्द्र सरदेसाई, कामत होटल के पास, चर्च स्कवॉयर, पणजी-गोवा	
4.	श्री नितिन कुणक्लीन्दकर, अध्यक्ष, गोवा सैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, आजाद मैदान के सामने, पणजी-गोवा	सदस्य (नियोक्ता पक्ष) [पैरा 4(1)(ग) के अधीन]

1	2	3
5.	श्री केशव के. कामत अध्यक्ष, गोवा लघु उद्योग एसोसिएशन, शिव टॉवर्स, पट्टा प्लाजा, पणजी-गोवा	
6.	श्री क्रिस्टोफर फोणिसका, (ए.आई.टी.यू.सी.), गोवा ट्रेड एंड कमर्सियल वर्क्स यूनियन, वेलहोस बिल्डिंग, दूसरा तल, म्यूनिसिपल गार्डन के सामने, पणजी-गोवा	सदस्य (कर्मचारी पक्ष) [पैरा 4(1)(घ) के अधीन]
7.	श्री पुदु गोंवकर (बी.एम.एस.), महासचिव, गोमांतक मजदूर संघ, शेटी शंकुस टिस्क, पोंडा-गोवा	
8.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गोवा	सदस्य सचिव [पैरा 22 के अधीन]

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, गोवा के प्रभारी, क्षेत्रीय समिति के सचिव होंगे।

क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल प्रारम्भ होने से तथा सरकारी गजट में उनकी नियुक्ति अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष का होगा। तथापि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति सरकारी राजपत्र में अधिसूचित नहीं हो जाती।

यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

अनिरुद्ध राय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2005

सं. एन-15/13/14/11/2005-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ चेन्नई राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :—

“जिला कोंचीपुरम में श्रीपुरुमुदूर तालुक के श्रीपुरुमुदूर, मण्णूर सेंगाडु, मूवलूरकुप्पम, तण्डलम, नेमिली, पेन्नलूर, माम्बाक्कम, पोण्डूर, इरुडकाट्टुक्कोट्टै, काट्टाम्बाक्कम, इरुगुलम, वडमंगलम, पाडिचरी, किलाई, सिरुकिलाई, आयकोलतूर, वलरपूरम, पिल्लैप्पाक्कम, वैकाडु, इरुम्पेडु, कोलतूर, ओड्डनकरनै, गुण्डु पेरुम्पेडु, सिरुकलतूर, वडकाल, अरनेरी आदि राजस्व ग्राम।”

एस. थॉमस

निदेशक (यो. एवं वि.)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi, the 21st September 2005

No. Conf. 5 (20) 2001/Goa/ t5661—In accordance with the provisions of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, hereafter referred as "Scheme", the Chairman, Central Board of Trustees, Employees Provident Fund hereby sets up a Regional Committee for the State of Goa consisting of the following persons namely:—

Sl. No.	Name & Designation of the Member	Appointment as
1	2	3
1.	Dr. Suresh Amonkar, Hon'ble Labour Minister, Govt. of Goa, Panaji-Goa.	Chairman [Under Para 4(1) (a)]
2.	Adv. Elgar Noronha, Padnavatu Towers, 18, June Road, Panaji-Goa.	Official Members [Under Para 4(1) (b)]
3.	Adv. Rajendra Sardessai, Near Kamat Hotel, Chruch Square, Panaji-Goa.	
4.	Shri Nitin Kunkliendkar, President, Goa Chamber of Commerce & Industries, Opp. Azad Maidan, Panaji-Goa.	Members (Employers' side) [Under Para 4(1) (c)]
5.	Shri Keshav K. Kamat, President, Goa Small Scale Industries Association, Shiv Towers, Patta Plaza, Panaji-Goa.	
6.	Shri Christopher Fonseca (AITUC), Goa Trade & Commercial Workers' Union, Velho's Building, 2nd Floor, Opp. Municipal Gardeo, Panaji-Goa.	Members (Employees' side) [Under Para 4(1) (d)]
7.	Shri Putu Gaonkar, (BMS), General Secretary, Gomantak Mazdoor Sangh, Shetye Sankul Tisk, Ponda-Goa.	
8.	Regional Provident Fund Commissioner, Goa.	Member Secretary. Under Para-22.

The Regional Provident Fund Commissioner, In-charge of Goa shall be the Secretary of the Regional Committee.

The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

This will come into force with immediate effect.

ANIRUDH RAI
Central Provident Fund Commissioner

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 20th September 2005

No. N-15/13/14/11/2005-P&D:—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely:—

"Areas comprising the Revenue Villages of Sriperumpuder, Mannur, Sengadu, Mevalurkuppam, Thandalam, Nemili, Pennalur, Pondur, Mambakkam, Irungattukottai, Katrambakkam, Irungulam, Vadamangalam, Padicherry, Kiloy, Sirukiloy, Ayakolathur, Valarpuram, Pillaipakkam, Venkadu, Irumpedu, Kolathur, Oddankaranai, Gundu perumpedu, Sirukalathur, Vadakal and Araneri of Sriperumpudur Taluk in Kancheepuram District."

S. THOMAS
Additional Commissioner (P&D)